



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032024-252713
CG-DL-E-07032024-252713

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2024/फाल्गुन 16, 1945

No. 145]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2024/PHALGUNA 16, 1945

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2024

फा.सं. 18-11/7495-आईएनसी:-समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, ह्यूमन टॉर्च स्कूल ऑफ नर्सिंग, मयूर ग्रीन, प्लॉट नं. 6, स्नागमबाग रोड के सामने, पटेल पार्क के पीछे, जामनगर, जिला जामनगर-361005 (गुजरात) गुजरात राज्य सरकार तथा गुजरात उपचर्या परिषद् द्वारा एएनएम और जीएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए आयुक्त (स्वास्थ्य) और पदेन सचिव (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), ब्लॉक नं. 05, पहली मंजिल, पुराना सचिवालय, डॉ. जीवराज भवन, सेक्टर नं. 10, गांधीनगर-382010, गुजरात को संबोधित नोटिस संख्या 18-11/7495-आईएनसी दिनांक 27.06.2023 को जारी किया गया था। दिनांक 27.06.2023 को जारी नोटिस की एक प्रति ह्यूमन टॉर्च स्कूल ऑफ नर्सिंग, मयूर ग्रीन, प्लॉट नं. 6, स्नागमबाग रोड के सामने, पटेल पार्क के पीछे, जामनगर, जिला जामनगर-361005 (गुजरात) को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, ह्यूमन टॉर्च स्कूल ऑफ नर्सिंग, गुजरात के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि संस्था यानी ह्यूमन टॉर्च स्कूल ऑफ नर्सिंग ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। दिनांक 23.02.2023 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों में कमी है, विशेष रूप से वे कमियां जो नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं। ये कमियां गंभीर हैं जो दर्शाती हैं कि संस्थान एएनएम और जीएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने में असमर्थ है।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 22.09.2023 से ह्यूमन टॉर्च स्कूल ऑफ नर्सिंग, मयूर ग्रीन, प्लॉट नं. 6, स्नागमबाग रोड के सामने, पटेल पार्क के पीछे, जामनगर, जिला जामनगर-361005 (गुजरात) से एएनएम और जीएनएम मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति गुजरात राज्य सरकार के आदेशों के अधीन केवल गुजरात राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./794/2023-24]

INDIAN NURSING COUNCIL WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, 15th February, 2024

F.No. 18-11/7495-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Human Torch School of Nursing** situated at **Mayur Green, Plot No. 6, Opp. Snagambag Road, Behind Patel Park, Jamnagar Distt. Jamnagar 361005, Gujarat** is recognized by State Government of Gujarat and Gujarat Nursing Council to conduct ANM & GNM Course.

Whereas, a notice no. 18-11/7495-INC dated 27/06/2023 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to the Commissioner (Health), & Ex-Officio Secretary (Public Health & Family Welfare) Block No. 05, 1st Floor Old Sachiwalay, Dr. Jivraj Bhavan, Sector No. 10, Gandhinagar – 382010, Gujarat was issued. Copy of the notice dated 27/06/2023 was also enclosed to **Human Torch School of Nursing** situated at **Mayur Green, Plot No. 6, Opp. Snagambag Road, Behind Patel Park, Jamnagar Distt. Jamnagar 361005, Gujarat**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Human Torch School of Nursing**. Even the institution, **Human Torch School of Nursing** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 23/02/2023 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute that the institution is unable to run ANM and GNM Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3) (b) declares that with effect from 22/09/2023 any person holding a recognized qualification of **ANM & GNM** from **Human Torch School of Nursing** situated at **Mayur Green, Plot No. 6, Opp. Snagambag Road, Behind Patel Park, Jamnagar Distt. Jamnagar 361005, Gujarat** shall be entitled to be registered only in the State of **Gujarat** subject to orders of state government.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.
[ADVT.-III/4/Ext./794/2023-24]